

arranging production credit to their member-growers. The production credit covers purchase of seed cane also.

(iv) Some of the public sector and joint stock sugar factories also extend facilities to cane-growers for sugarcane cultivation, by arranging loans from nationalised banks, recoverable at the time of cane supply.

भारतीय खाद्य निगम के पास आयातित और देशीय गेहूँ का स्टॉक

* 424. श्री राघवजी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1977 को भारतीय खाद्य निगम के पास आयातित और देशीय गेहूँ का कितना स्टॉक था;

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान और अप्रैल तथा मई, 1977 में कुल कितना गेहूँ आयात किया गया; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास ऐसा 31 मई, 1977 को कितना गेहूँ था जो एक वर्ष से अधिक अवधि से निगम के पास पड़ा हुआ था ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 31 मई, 1977 को लगभग 40 लाख मीटरी टन आयातित गेहूँ और लगभग 62 लाख मीटरी टन देशी गेहूँ पड़ा था।

(ख) 1976-77 के दौरान 49 लाख मीटरी टन गेहूँ का आयात किया गया था। अप्रैल और मई, 1977 के दौरान गेहूँ का कोई आयात नहीं किया गया।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास 31 मई, 1977 को गोदामों में पड़े गेहूँ में से 40 लाख मीटरी टन गेहूँ से थोड़ी अधिक मात्रा एक वर्ष से ज्यादा पुरानी थी।

Veeranam Water Supply Project in Tamil Nadu

3013. SHRI S. D. SOMASUNDARAM:
SHRI M. KALYANASUNDARAM:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the findings of the Expert Committee set up by the Government of Tamil Nadu in regard to the efficacy of the pipes being used in the Veeranam Water Supply Project and also in proceeding with the utility of the scheme;

(b) whether the scheme would be speeded up/abandoned/slowed down;

(c) if the scheme is to be speeded up, the target date fixed for completion of the project; and

(d) the capital investment so far made and that which is yet to be invested for completion?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). The Technical Committee has observed that the VACRETE technology is inherently sound. It has recommended the continued use of the VACRETE technology with adequate safeguards.

However, divergent views have been expressed about the VACRETE technology by the Consultants appointed by the UNDP/WHO Team on Pre-Investment studies of Madras Water Supply and Sewerage, who feel that the quality of about 60,000 metres of pipes already manufactured with VACRETE technology is inadequate